LIN ELECTRONICS LIN

Regd. & Corp. Office: 4771, BHARAT RAM ROAD, 23 DARYA GANJ. NEW DELHI-110 002 Tel.: 91-11-43000400 Fax: 91-11-23289340 Website: www.elinindia.com



August 07, 2025

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

BSE Limited Corporate Relationship Department, 2nd Floor, New Trading Wing, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 543725

Symbol: ELIN

ISIN: INE050401020

Dear Sir/Ma'am,

<u>Sub</u>: Newspaper Advertisement- 43rd Annual General Meeting.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement intimating about the dispatch of Notice of 43rd Annual General Meeting and Annual Report for FY 2024-25 to the Shareholders of the Company, published in the following newspapers on August 07, 2025:

1	Pioneer	Hindi
2	Financial Express	English

We request you to take the above information on record.

Thanking You

Yours faithfully,

For Elin Electronics Limited

Lata Rani Pawa Company Secretary & Compliance Officer M. No.: A30540 cs@elinindia.com Encl: As above





Factories:-

C-142-143-144-144/1-144/2 Industrial Area, Site No.1, Bulandshahar Road, Ghaziabad - 201009 (U.P.)

L-84, Verna Industrial Area, Electronic City, Verna, Goa - 403722. Village: Beli Khol, Post: Manpura - 174101, Teh: Nalagarh, District: Solan (Himachal Pradesh)

CIN: L29304DL1982PLC428372

GSTIN: 09AAACE6449G1ZJ

राखी को लेकर बाजारों में रौनक

सड़क सुरक्षा की अनूठी पहल, एसीपी इंदिरापुरम ने बांटे मुफ्त हेलमेट

पार्वानवर समाचार सेवा। गाजियाबाद

सडक सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट ने एक सराहनीय कदम उठाया है। थाना कौशांबी क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इदिरापुरम अभिषेक ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे चालकों को रोककर निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य न केवल यातायात निवमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर लोगों की जान बचाना भी था। एसीपी अभिषेक ने दोपहिया चालकों को संबोधित करते हुए कहा, रहेलमेट सिर्फ एक कानूनी औपचारिता नहीं, बल्कि आपको और आएके परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है। सहक दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंबाते हैं, जिनमें से अधिकांश मामले हेलमेट न

याचनिवर समाचार सेवा। शानिवाबाद

'सूपर दिवा अवीद्दर्स सीजन 3' का

अयोजन दिल्ली के होटल रैडिसन ब्लू,

द्वारका में भव्यता और गरिमा के साथ

संघन्न हुआ। यह आयोजन न केवल

महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान

देने का गंध था, बल्कि समाज को

संशक्तिकरण और प्रेरण का संदेश देने

वाला एक ऐतिहासिक क्षण भी बना। इस

वर्ष देशभर से चवनित 40+ प्रेरणादायक

महिलाओं को उनके करपंक्षेत्र में उल्कृष्ट

योगदान, नेतृत्व और समर्पण के लिए

सुपर दिवा अवॉर्ड से सम्मारित किया

रया। यह अवॉर्ड उन महिलाओं की

समर्पित था, जिन्होंने न केवल अपने

जीवन में ऊंचाइयों को छुआ, बरिक

समाज में भी बदलाय लाने का बीड़ा

उठाया। कार्यक्रम की शोभा बनी

बॉल्वेवुड अभिनेत्री और स्पीकर मिस

यहाबी शर्मा, जिन्होंने अपनी प्रेरक

उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुख्य कर

दिया। वहीं, नेस्ट ऑफ ऑनर लेफ्टिनेंट

कर्नल हिमाशी सिंह, पूर्व सेना अधिकारी

देश की नारी शक्ति को समर्पित





 अभिषेक ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे चालकों को रोककर निःशुल्क हेलमेट किए वितरित

पहनने के कारण होते हैं। उन्होंने चालकों से नियमित रूप से डेलमेट पहनने और बातायात निवमों का कडाई से पालन करने का अखान

सशक्तिकरण और संकल्प का भव्य उत्सव

एवं HV Soft Skills की संस्थापक,

ने अपने जोशीले वक्तव्य में महिलाओं

और युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति

समर्पित रहने का संदेश दिया। मिसेज

श्लोब 2025 और इंब्ड फाउंडेशन की

प्रवक्ता अनुराधा गर्ग ने महिला

सप्रक्तिकरण को लेकर अपने सप्रक्त

विचार साझा किए, जो सभी के लिए

प्रेरणास्रोत बने। सम्हेचा बेलफेक्र

फाउंडेशन के बच्चों हारा प्रस्तुत

'ऑपरेशन सिंदर' पर आधारित नृत्य

नाटिका ने शहीदों की बीरता और कन्या

शक्ति की गरिमा को अञ्चत रूप में प्रस्तुत

किया। दर्शकों की आंखें नम भी, दिल

गर्व से भरे थे। तपस्या शादान, आरजे,

कॉर्ति सिंह, इंटीरियर डिजाइनर, अंजलि

सिंह, देबोराती सिन्हा, डॉ. आसी वर्मा,

को-फाउंडर, प्रियंका गुप्ता, शिटिज

जीवन रक्षा का एक अनिवार्य साधन है, जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। कई दोपहिया चालकों को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किए गए। हेलमेट प्राप्त करने वाले बदक सवारों ने पुलिस प्रशासन की इस पष्टल की जमकर सराहना की। कई पालकों ने भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट का नियमित उपयोग करने का

नागपल, अनुप्रिया श्रीवास्तव, प्रेक्ष गुप्ता,

कृष्णा , श्येता वर्मा, सुत्रिमता सिंह, पूरवी

खेरा, सोतिनी रॉय चौधरी, अंबा बोम,

प्रो. मेथा माधुर, सपना निजवान, डॉ.

नीलम परवानी, निधि बंसल, इला शर्मा,

श्वेता पोर्वाल, चेतना असिवाल, चारू

सूरी, स्वर्णिमा गीलम, सीमा मल्होत्रा और

सोनाली सिंह कई अन्य प्रेरणाद्यश्क

महिलाएं। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित

हस्तियों ने अयनी उपस्थिति से गरिमा

बढाई, जिनमें शामिल थीं। डॉ. ब्लॉसम

कोचर, समांधा कोचर,डॉ. ऋवा सूद,

सोनम मिखा, क्वेता राका, विट्न प्रभा,

नमिता चड्डा, येथा तलवार सहित अनेक

खंडर्स और चेंजमेकर्स विकसित भारत

2047 में महिलाओं की भूमिका पर

आधारित संवाद ने विधारों की गतराई

से सभी को सीचने पर विवश किया।

ऑनलाइन दवाओं की बिक्री रोकने को लेकर प्रदर्शन

गाजियाबाद। ऑनलाइन प्लेटफरमं पर दवाओं को बिक्रो को रोकने की मांग को लेकर बुधवार को गाजियाबाद केमिस्ट पसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दवा व्यापारियों को उद्योग व्यापार मंहल का भी समर्थन मिला। व्यापारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री को संबोधित जापन प्रशासन को सौँपा। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड इगिस्ट्स (एआईओसीडी) के निर्देश पर गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन (जीसीए) ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष राजदेव त्यागी ने कहा कि दवाओं की अवैध ऑनलाइन विक्री पर राज्य औषधि प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके कारण ऑनलाइन फामेसी प्लेटफार्म के माध्यम से दवाओं की अवैध बिक्रों के बढ़ रही है और खुदरा कारोबारी के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ रहा है।

सार्वजनिक सूचना मैं पदम बीवारतव, पुत्र रव. पूरम बंद बीवास्तव, निवासीः 12/120, गीला कॉलोनी, दिल्ली-110031 अपने दोनों बेटो, वरूण बीवास्तव और अर्जुन बीवास्तव को अपनी सारी संपत्ति से बेएकल करता हूँ और अपना रिश्ता भी करम करता हूँ। आज से मेरा इन दोनो एवं इनके परिवार से कोई लेना-देना नहीं हैं।

PUBLIC NUTICE beneby be outline men is hereby be published in the we Puper on behalf of my client mely hakesh, for the discovered / debu nd severed all their relation with his in namely Aman Dart, Bakesh 5/o Dev urt, aged, 53 years, If/o 5-667, School lock Near Baba Balak Nath Mandir dourpus; East Delbi, Delbi-110092. M not fuse divested bis son from all the end amets, Sery person dealing with him olely on their own risk and empossibility SANGEEP BINK, LAJAhrenster (CA.No. 13. New Bulblin Paliste Brane Courts, New Dalls &C, M. SETTEZZICK

PLIBLIC NOTICE PUBLIC HOVERS

TO whom to the public, all larger that IM Harson khaus I acquired Plot and measuring 214.33 to, yords, not stort No. 343, should at Village Kasterio, Purgans and Testa State Inc. 343, should at Village Kasterio, Purgans in. Testa 5 Librario Sciandard to Hars, Rajos in tentur of the 18 J. 2023 weeded by Min. Rajos in tentur of the Harson Mann in respect of the said proper to, their yeast, does not 18 J. 2023 on coded 18 J. 7. 2023 at 540-based binario. Mr. Harson Mann those is the prefix policy of the said property of the yeast.

Are bettern if then i mellitation i company having any sharts or cight in respect of the said Property by way of infer-factor, sharts, said, segmented, facility, scotting, stip, account, significant, justifiers or insulativaries hisrocon-or or otherwise is his day required to inferrate in writing to the understanding within 10° days from the date of pub-lication of the source of hockey-their shart or count, if any, Ajay Kumur (Srl jAdvacate) H.No. 25/T8T, Sen

सार्वजनिक सूचना

पायनियर समाचार सेवा। गानियाबाद

रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए शहर

में चहल-पहल बढ़ने लगी है। इसी

क्रम में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन परिसर में स्वर्थ

सहायता समूह की महिलाओं हारा

तैयार किए गए हस्तिनिर्मित राखी व

उपहार सामग्री के स्टाल लगाए गए है। भवन में लगे इन स्टालों पर

महिलाओं द्वारा हाथ से बनी राखियां, सजाबटी कंगन, राखी गियट हैंपर,

और रक्षाबंधन विशेष प्रिंट वाले

कपड़ों बिक रहे हैं, जिन्हें कर्मचारियों

व भवन में आने वाले आर्गतुक स्वरीद

रहे हैं। इन महिलाओं को राष्ट्रीय

ग्रामीण मिशन हारा छह दिवसीय

प्रशिक्षण दिया गवा था। छह दिवसीय

प्रशिक्षण में महिलाओं ने राखी बनाना

सीखने के साथ -साथ अन्य वस्तुओं

को बनाया है। डीडीओ प्रज्ञा

श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं

को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग

समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण देता

है। इसी क्रम में 30 महिलाओं को

धीरीहर कर्मा/धोरीहर क्षमी एक स्वर्गीय सं ग्रेक्टर ३ रोहियो दिल्ली ११००६५, एटट्या गर्वजनिक सूचन देता हूं कि कुछ दस्तावेओं में मेरा नाम गानत लाखे से "बोलिटर कार्य लिखा गया है और अन्य दासावेजों में "योगेंहर

PUBLIC NOTICE

At the original documents i.e. ALLOCATION LETTER POSSESSION LETTER, 5TH AND FINAL DEMAND PUSSESSION LETTER, STY AND THAT, DEMNIS LETTER, SITE POSSESSION SIZE, NOC FOR SLECTIFIC AND WATER CONNECTION, SANK CHALLANS, AND SOME CITIER DOCUMENTS of the stook for fave been set, As FIR against this office has been tridged in Police station.

नाम "योगीत नामी" है।

Is be known to all that I amt. Ambalka mandy with children shabt nic field no. 2584, third floor, sector of, path vessel, kurj. new defin-110070 owner of Doe Fiel Ro 2584, Thet Floor, Sector-0, 196-7, Callegory-Sh-4, Hasant Kurj., New Debt-110070 has applied for convention of the atomises flat in DOA.

Any paneirs daiming any right, interest, taxing any objection or faunt in passession of original documents trop write contact with above named person at above addressighters NO, 9945170307 with 15 days thus the data of publication of this notice. The person claiming any

संक्षिप्त खबरें

दादरी के अंदर से होकर बसें चलाने की मांग

ब्रेटर नोएडा । दादरी आर्य प्रतिनिधि सचा ने परिवतन विचाग से रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों को बजाय बायपास के दादरी बस अड्रे से होकर चलाने की मांग की है। संगठन के ज़िला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने बताया कि सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों के लिए आठ, नौ और दस अगस्त को फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। उनकी मांग है बसें दादरी के अंदर स्थित अड्डे से होकर

कार की टक्कर से पिता-पुत्र घायल

नीएडा। सेक्टर-126 धानाक्षेत्र के नीएडा-डेटर नीएडा एक्सप्रेसवे पर बने कट के पास तेज रफ्तार कार के चालक ने स्कुटी में टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्र दोनों घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सेक्टर-126 थाने में दी शिकायत में दिल्ली के बदरपुर निवासी नदीम अहमद ने बताबा कि तीन अनस्त को उनका भाई वसीम पिता सईद के साथ स्कृटी से महामाया होकर दिल्ली आ रहा था। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक कट के पास हरियाणा नंबर की कार के चालक ने स्कटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ओरदार थी स्कृटी सवार पिता-पुत्र दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अभी भी उपचार चल रहा है।

सामान चोरी करने वाले दो बदमाश पकडे

नोएडा। कंपनियों में रेकी करने बाद चोरी करने वाले दो बदमाशों को फेज वन थाना पुलिस ने बुधवार को झूंडपुरा से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मुद्रु और राहुल के रूप में हुई। इनके पास से लोडे की 2 मोटर, एक फोल्डेबल सीड़ी और चोरी के सामान के बेचे हुए 3 हजार 500 रुपये मिले। पुलिस ने वारदात में उपयोग होने वाला ई-रिक्शा भी कब्जे में लिया है।

कॉपर तार चुराने वाले तीन गिरफ्तार

नोएडा। कंपनियों में सफाई करने के दौरान कॉपर के तार चोरी करने वाले तीन कर्मचारियों को सेक्टर-58 थाना पुलिस ने मंगलबार को गिरफ्तार किया। तीनों कंपनी से तार चोरी कर भागने के फिराक में थे, तभी अन्य कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। इनके पास से 22 किलो कॉपर के तार बरामद हुए हैं। इसकी कीमत 20 हजार रुपये हैं।पुलिस उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा

दो बदमाश घायल, चोरी का सामान बरामद

गानिकाबाद। थाना क्रांसिंग रिपब्लिक के अंतर्गत जल प्लांट अंडरपास के पास पुलिस की सधन | Varan She, Legal Report. New State 178008 चेकिंग के दौरान एक रोमांचक पुलिस पर कायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में दोनों बदमाश धायल हो गए। पुलिस के अनुसार, उपनिरोक्षक अकित के नेतृत्व में एक टीम चेकिंग प्वाइंट पर वाहमों की जांच कर रही थी। तभी एक सॉदिम्ध बाइक पर सवार दो व्यक्तियों को आते देखकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया। लेकिन बाइक सवारों ने रुकने के बजाय अपनी बाइक को स्पीठ बढ़ाकर रिख्याल गढ़ी की पुलिया की ओर भागने की कोशिश की। तरंत इसकी सचना रिख्याल गढी की पुलिया पर तैनात दुसरी पुलिस टीम को दी गई, जिसने बदमाशों को धेरने की कार्रवाई शुरू की। दोनों तरफ से घिरने के बाद बदमाशों ने जल प्लांट के पास अपनी बाइक छोड़ दी फावरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पलिस ने भी गोली चलाई. डिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। धायल बदमाशों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया ग्या। पृष्ठतास में बदमाशों की पहचान सनी हापुड़ निवासी और देवेश (क्रॉसिंग रिपब्लिक निवासी) के रूप

नुठभेड़ हुई। इस दौरान दो बदमजों ने | होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया tisfiget enthiet : 406 / 75-76, wiftet fallen, finn tibe, og fleidf-etcore

diverge: www.hrani.net.in, (Fee: hrani.1950@gmail.com 74वीं वार्षिक क्रम बैसक विकेट ई-मोटिंग की संख्या

कन्तरी (अक्षेत्रम एवं उत्तराक्षर) अविधित्तर 2014 के निवस (b) (v) के अनुस्तव एएएड्डास सुवित क्रिया जाता है कि होटान एनड रेस्टोरेंट एस्टेटिएडरन जीक नीकेने इकिया की उन्हों नहींक जान देशक जुम्माद 25 जनसर 2225 को जाता-1:32 कर्ज न करणान, नैकानक बाईंड 48, एस्टोक्सी री.स. जी क्रमींक, स. समानका, विश्वी-110327 (बीन : 615 संगठ-१८४) में आयोजित होगी निविद्य की एसी है। वार्षिक जान देशक की सुवान होटान एन्या रेस्टोंड एस्टोक्सिन्सन और नीकेंड हिस्सी सभी सदनवीं को 06 अध्यार 2025 को दें दी गई है। यह कोम्सी की वेसलहर अस्प्र स्थानका उत्तरेत सभी

वर्षिक जरूर केवळ में निरूपीनविकत अवस्थाय निषयिक विके प्रवर्तन WINDSHIP SERVICE

 as red, page at overe set dig self-a med at says over . लेका परीकाओं की नियुक्ति

दस्य वर्षिक जार केल्क के स्थान (तिसंद ई-वंदिन) के जलक किसी जन्म स्थान से RysQVa black Patter में इसेन्ट्रॉफिक पोर्टिंग विगटन के नायम से नामिक जान बैडक की नोटिल में निवर्त ताप पर प्रजिल्ह्रोंकिक कर से अपना बीट जात सकते हैं। सभी शहनतें भरे सुनित किया जाता है कि शांकि जान बैठक के लेटिस में बताए गए माजसार को एजीएन में रिनेट ई-केटिन / इन-वर्तन वंटिंग

सं चारतम् सं क्रिया सा पामता है। शासका में नदीनोकरण के लिए सभी जीवपारिकताओं को पूरा करने और इस रास्ट रिवेट ई-पीटिंग जी ਬਾਵਿੰਗ ਗਾਂਦ ਬੋਲਕ ਦੇ ਜੀਉਂਦਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਦਾਤ ਜੀਏ ਕੇ ਜੁਦੇਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦ-ਗੱਚ ਦਾਉਂਦਾ 54 ਕਾਸਦਾ, 2025 ਹੈ। रिनेश ई-वोरीम सुविध 16 शामार, 2025 ग्रास: 6:30 मेरी शुप होगी तथ 20 ग्रामार, 2025 मार्ग 6:30

सदस्याण कृषा नींट करें . अ) निर्मेट ई-वॉटिंग श्रीवाधून प्रिकृत्यिककार्यकार Pet Lif' द्वारा 20 जगरा: 2025 सार्व 500 मार्न के सार जन्मण कर वित्रा आहार, और एक बार सराम द्वारा किसी अस्तर का दोट जारने से बाद, सदक्त को बाद में इसे बदकने वर्ड अनुनति नहीं दी आएमी। ब) दिक नायरही एकेएन से पाले फिदंट ई-पोटिंग द्वारा काना बेट वाला है वे भी एकीएन से सामित हो सबसे हैं. लेकि रीक्या सेट सामने से शकदार नहीं होते।

बोटन एक रेस्टोरेंट एक्टिफिक्टर और नोर्वन इतिहा भी उत्तर नास्ति ने भी दोरे गुप्त, तीए गुप्त एव एकोसिएएस को एजीएम के लिए सब्हरिनाइजर नियुक्त किया है।

gring! The vittin it wellow consent by worsern Agrazione Intend Parist 47 ann. (8) engs, either Fitter, reichteilt, gied-woorz ister: +91.9620581306, ditter: contact@right2vale.in th winter mer worth fig.

हुओ बोट्स एवड नेवटोट एकोविएकर ओक नोबंध हुकिय रेन् सर्वतिया

स्नेह इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

पंजी, कार्यालयः डेल्टन राज्यम्, 4801, मरत राम शेर, 34 दरिवानंज, गई डिल्मी-110022 effertige: L74856CL1580PL06007S, dwenge: https://www.in # 4x sandtiffgnal.com str. m. estates

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित एवं स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण

प्यनी के निवेशक मंडल ने मंगलवार, 5 अगरत, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, शेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखायरीक्षित वित्तीय परिणामी (स्टैंडअलीन एवं समेकित) को स्वीकृति दी है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के विनियम 47 के अनुपालन में, प्रपरोक्त परिणाम अब तुरन्त प्रतिक्रिया कोड ('क्यूआर कोड') के मध्यम से उपलब्ध कराए

परिणान और उन पर लेखा परीक्षक की सीमित समीक्षा रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट https://saneh.in/disclosures-underregulation-46-of-sebi/quarterly-results/ और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, यानी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड https://www.cse-india.com/ पर संपर्क करके हात करें। क्यूआर कोड रकैन करके भी परिणाम देखे जा

रनेह इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड वे तिए और उनकी बोर से sem /

दिनाक: 65.08.2025 स्थानः विकासी

विवेक मुखा



राखी बनाने के लिए ट्रेनिंग दो गई थी, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की राखी व रक्षाबंधन त्योहार के लिए विशेष गिफ्ट बनाने सिखाए गए थे। जिसमें बच्चों के लिए कार्ट्न वाली राखियां और बीज वाली राखियां भी

तैयार की हैं। अधिकारी ने बताया कि कचहरी और शहर के विभिन्न स्कुलों में स्टाल लगाए जाएँ। साथ ही नगर निगम से बात कर वाहां भी स्टाल लगाए जापरी। इन स्टालों पर राखियों की कीमत 10 रुपए से शुरू

होकर 50 रुपए तक है। महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियों में से 100 राखी को दिल्ली भी भेजा गया है. स्टाल लगाने के अलावा शहर के प्रमुख बाजारों में महिलाॐ ने धोक विक्रेतओं को राखी बेची है।

एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

कॉर्थोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः ४७७१, भरत राग रोड, २३, दशियागंज, नई दिल्ली-११० ००२, भारत सीआईएन: L29304DL1982PLC428372

दुरमाषः 011-43000400 | ई-मेल: rkc@elinindia.com | वेबसाइट: www.elinindia.com

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, कट-ऑफ तिथि एवं ई-वोटिंग की जानकारी

कमानी के सदस्यों की 45वीं वर्षिक जाम बैठक करियार, 30 जगरत, 2025 को 10:30 बजे पूर्वक (आईएसटी) कमानी जिमित्रम 2013 (अधिनियम) एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमी तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिषय कोई (सूबीबद्धाता बाब्दराएँ और प्रकटीकरण प्रदेशाएँ) विभिन्नम् 2015 (पूर्वीबद्धता विभिन्नम्) सं सर्गं आयु प्रास्थानों सं साथ पठित कॉपॉरेट मानले से संजलाय (एमसीए) एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्च (शंबी) द्वारा जारी सभी लागू चरिपजो के अनुसासन में, वीकियो कॉन्बॅरेशिन (वीसी) / अन्य ऑकियो विजुञत साधनों (ऑएबीएम) के सध्यम से एजीएम की सूचना में निर्देश्ट व्यवसाओं के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएबीएम के मध्यम से एजीएम में भाग अने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के मंदस में भर्ती-भीति बताई गई हैं। वीती/बोएबीएम शुविधा के माध्यम से एटीएम में भाग लेने वाले सवकतें को अधिनियम की पाना 100 के तहत कोडम वे प्रदेश्य हेलु संगमित किया जाएगा।

वपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, विशीध वर्ष 2024-20 तेतु वार्षिक रिफेर्ट जिलाने विशीय विवरण, निर्देशकों एवं अंबेक्षकों की रिफेर्ट तथा वसके राज्य संस्थान किए जाने वाले क्या परतारंज शामिल हैं और एसीएम की आहुत सुचना कम्पनी वे सदस्यें, तथा अन्य अधिकृत व्यक्तिः जिनके ई-मेल को अस्पनी / एजिस्ट्रार व रूपर ट्रांसकर एजेंट वंधिन टेक्नोसीजीज लिमिटेव, सेलेनियम बिलिवंग टीवर-बी, प्लीट नंबर ३१ एवं उर, वितीय जिला, नानकशमपुढा, हैयशबाद – ५०० ०३२ अथवा कियोजिटरी प्रतिभागियों (कीपी) वं साथ, को 1 अगसा, 2025 को पंजीकृत हों, को 6 अगसा, 2025 को प्रेषित कर दी गई हैं। प्रायद्वेत इस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट स्टीक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेक की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं नेशनल श्टीक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तिनिटेड की वेबलइट **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं और डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्योबद्धता विनिधम सं विनिधमन 36(1)(वी) कं अनुसार, कम्पनी चन संतरधारकों, जिनकी ई-नेज आईबी सम्पनी/आरटीए/बीपी के राज्य पंजीवृत्त नहीं है. को एक पत्र भी सेज रही हैं जिसमें देवलिंक. कम्पनी की देवसाइट का सटीक एव प्रदान किया गरा है. नहीं से विशीय वर्ष 2024-25 की वर्षिक रिपोर्ट अभिगरित जा सकती है।

ई-बोटिंग: कमानी अपने शरान्यों को, जो शनिवार, 23 समस्त, 2025 (कट-ऑफ दिक्षि) तक मीतिक या सीमेटेनियालाइजस क्तव में इकियरी शेवर प्रतिरक्षित करते हैं, सीबीएसएस द्वारा प्रदान की गई ई-वॉटिंग सेवाओं के मध्यम से, एजीएम में विवार किए जाने वाले नदीध्यारित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में, निम्नलिखित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से उनके बोट के अधिकार का प्रयोग करने की शुविधा प्रशान कर रही है।

 (क) रिमोट ई-बोटिंग रिमोट ई-बोटिंग अवधि बुधवार, 27 अगस्त 2025 (9.00 करे पूर्वांक) आरम्प होगी एवं शुक्रवार, 29 अगमत, 2025 (5.00 बजे अमराह) जो समापा होगी। यस रिपि एवं समा में एपराना रिमोट ही-वोटिंग की अनुमति नहीं

 (a) एजीव्स में ई-सोटिंग: एजीएम में ई-पोटिंग की मुक्कित कन सदस्यों हेतु भी उपलब्ध सराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-पोटिंग द्वारा अपना चोट नहीं बाता हो तथा वे बीती या ओएडीएम के माध्यम से एडीएम में भाग ले रहे हों।

कंडल वही व्यक्ति जिसका नाम कट∽ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या विधीजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रेजिस्टर में दर्ज हो, रिबोट ई-वोटिंग क्रमता एजीएन में ई-वोटिंग की भूविधा का लाम वातने हेतु अधिकृत होया।

होमैटीरियलड्रप्य तीर पर/भौतिक तीर पर शेवर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों द्वारा निभेट ई-वोटिर/एपीएम में ई-वोटिर तथा चन सदस्तों में ई-मेल पड़े पंजीकृत करने जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है एवं ई-बोटिंग हेतु लॉगिन बाईबी एवं पास्तवर्त से संबंधित जानकारें, निर्देश और ब्रक्तिया एजीएम की सूचना में दिए गए हैं, जो जीजीएसएस की वेबसाइट www.evotingindia.com पर से जपलब है।

मेशर्स पी.चे. अध्यक्तत एव कलानी, के की प्रमोद प्रशाद जयपान, कल्पनी संबंधकीत (सीची सरका 10666) को रिमोट ई-सोटिन समा बैठक के दौरान ई-वोटिंग की निषक्ष एवं पारदर्शी तरीकें से धाँच करने हेतु संवीधक नियुक्त किया गया है।

जिन सदस्यों ने एऔएन जी तिथि से पूर्व रिचेट ई-जेटिंग द्वारा अपना बोट बात दिया हो, वे भी वीसी या ओएवीएन से मध्यम से एजीएम में मान से शकते हैं. घरना से एजीएम में पूना दोट देने हेतु अधिकृत नहीं होंने।

कोई थी थाति। जो सुधना से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषण के प्रत्यात सेवर अभिडाहित करता है और कम्पनी का सदस्य बन जाता है एवं कट-वॉफ टिमि तक इक्किटी शेवर प्रतिरक्षित रखता है, वह एथीएम की शुक्रण में उदिलक्षित ई-वॉटिंग की प्रक्रिय का पासन करके लेगिन आईवी एवं पासवर्त प्राप्त कर सकता है। हालींकि, यदि सदस्य ई-वंटिंग हेतु सीवीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो ऐसा सदस्य ई-वोटिंग के मध्यम से बोट बालने हेतु मीजूदा लॉगिन विवरण का जपवोग कर सकता है। ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृताजयवन करने की प्रक्रियाः

भौतिक और पर प्रतिरक्षित शेवर प्रयाह सन्पर्ध में सारतीए, मेकिन टेक्नेजॉओज विनिदेश (पुनिट एतिन इसेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेब), (मेल: einward.ris@kfintech.com के शाध, नियारित योगे ISR-1 गरित जन्म प्राथमिक यॉर्च विधिकत पुरित एवं इच्लाक्षरित कर के पैन एवं कंबाईसी विकरण (ई...पेज पता तथा बैंक खाते के विवरण सहित) पंजीकृत / अकतन करें) सदस्य कम्पनी औ वेबसाइट https://www.elinindia.com/investors/#Various_Forms पर उपलब्ध प्रसन्तिक

हीमैंट तौर पर प्रतिरक्षित शेयर कृषण आपने दीपी से संपर्क करें एवं अपने दीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने वीमेंट खाते में अपना पैन, ईमेल पता, मैंक खाते का विचरण आदि पंजीवृत्त/अधारानित करें।

वर्षित सामाण के पत्रवात एवं अनुरोध किए आने पर, कम्पनी/आस्टीए गलके पंजीकृत ईमेल पते पर वनके लॉमिन क्रेकेरियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को अग्रेषित करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से पटदान की सुविधा से सम्बंधित किसी मी किकायत हेटू औ सतेबा दलती, वरिष्ट प्रबंधक, मेंट्रल बिपॉजिटरी सर्विताज (प्रतिया) लिमिटेड, ए विंग, 26वीं मंजिल, मैराबन प्रयूपरएक्स, स्वतालाल मिल बंपाजेक्स, एन एम जोशी मार्ग, लोकर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को संबोधित करें अध्यय <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर ईमेल भेज सकते हैं अध्यत 1800 21 03911 पर कॉल कर शकते हैं। आप किसी मी सहायता हेतु कम्पनी के समिवालय कार्यालय को मी लिख शकते हैं।

> कृते एवं की ओर से एतिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ENGINEY/

दिनांकः ६ जनस्त, 2025 स्थानः नई दिल्ली

लवा रानी पावा कम्पनी सवित एवं अनुपालन अधिकारी UT. ₹. A30540





लॉकर तोड़ने का नोटिस शासा कार्यालयः युको बैंक, एमसी, 93, अशोक भवन, नेहरू फोस, नई दिल्ली-110019 बैंक के डारा रिकॉर्ड में उपलब्ध, नवीनतम पते पर बार-बार अनुस्थारक बराने के बावजूद, अतिदेव लॉकर किराए बा भगनान नहीं किया गया है इसनिए बैक ने निम्नलिखित ग्राहकों के लोकर्य को तोइने का फेसला किया है। यदि निम्नोनियन प्राटक इस मोटिय के 15 दिनों से मीनर सम्बन्धिन शाखा से सम्पर्क करने में विफल रहना है, तो लॉकर तोड़ विए जायेंगे और लॉकरों में राबी गई मामग्री का विकय बैंब के रिशा निर्देश अनुमार कर दिया जाएगा।

¥.开.	VITRI	相和 电	直到的市	ग्राहक का नाम	देव राजि	ग्राहक का पता
1	नेहरू फोस	AA044	1944	आशा देवी	6.13,909- + Canna ges	25 / वीका, गली मं.21, मोलग्बै एक्सटेंशन, नई दिल्ली-1100क
2	नेहस प्लेस	AA054	1944	एमिएन इंटरप्राईनेत	0.24,957।- + दंदालक सुरक	102, कमला नगर, दिल्ली नई दिल्ली—110007
1	नेहरू प्लेख	AA078	1944	रूपरानी बक्शी	#:24,830/- + दंशरगढ मूल्क	थी-164, शासकाची गई दिल्ली-110019
4.	नेहरू प्लेस	DA297	1944	शिव नारायण	6.24,584- + canno gos	एष-3, कालकाची, नई दिल्ली-110018
5.	नेहरू फोस	BA109	1944	अर्जुनमन सिंधवी	+ दंबारगर गुरुक	ती–38, पंपीश एनलेव नई दिल्ली
6.	नेहरू फोस	DA307	1944	कामना उपल	* 25,932/- + Calima 15/46	95 / 100, विशाल भवन, नई दिल्ली-110001.

मकान से नकदी और आभूषण चोरी

पत्पनिवर समाचार सेवा। गाञ्चिवाबाद

लोनी। नधीन कुंज फॉलोनी में घोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर हजारों की नकदी के अलावा सोने और चांदी के जेवर चुरा लिए। 24 जुलाई की घटना में पुलिस ने खेमबार को रिपोर्ट दर्ज की है।

नवीन कुंज कॉलोनी में भारती अपने पति कृष्ण कुमार के साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई की रात चोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर कमरे की अलमारी का ताला तोड़ा और इसमें रखी करीब 15 हजार रुपये की नकदी, करीब डेड लाख रुपये के सोने और चांदी के आभूषण चौरी कर लिए। घटना के समय वह पति के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थीं। घर लौटने पर उन्हें 'बोरी का पता चला। इसके बाद उन्होंने मामले को शिकायत पुलिस से की। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़िता की शिकत्यत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

CHANGE OF NAME

I, Ashraful Alam Shekh, S/o. Jamiruddin Sekh, R/o. B-26/7, 3rd Floor, Okhla Vihar, Jamia Nagar, New Delhi-110025 declare that my name has been wrongly mentioned in my 10th. Class Marksheet as Ashraful Alam instead of Ashraful Alam

PD(2698)C

I, Laxman Rajak S/o Sh. Sauda Rajak R/o H.No. K B-20, Sector-14. Kaushambi, I.E. Sahibabad, Ghaziabad, U.P-201010, have changed my name and shall hereafter be known as Mantee Rajak.

PD(2699)C

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES LTD.

Registered Office: 3A Ripon Street, Kolkata, West Bengal, India, 700016 Email: complianceofficer@ellenbarrie.com Website: www.ellenbarrie.com CIN: U24112WB1973PLC029102

STATEMENT OF UNAUDITED PROFIT AND LOSS FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2025

					(₹ in Million)
			Year Ended		
SI. No.	Particulars	30 June 2025 Unaudited	31 March 2025 Refer note (i)	30 June 2024 Refer note (i)	31 March 2025 Audited
1	Total Income from Operations	836.3	824.69	672.87	3124.83
2	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (before / after Exceptional and / or Extraordinary items)	278.29	241.02	210.67	1,078.25
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	187,12	182.47	161.89	832.89
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)	(0.62)	(37.61)	3.86	1.77
5	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 2/-per share)	281.87	261.87	261.87	261.87
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				4439.76
7	Earning per share (Face value of Rs. 2/- per share) (not annualised) Basic & Diluted	1.42	1.39	1.24	6.36

(i) The unaudited financial results of Ellenbarrie Industrial Gases Limited ('the Company') has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act 2013, as amended, read with relevant rules there under ('Ind AS') and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, as amended ('the Regulations').

guarter ended 30 June 2024 have been presented based on information compiled by the Management of the Company in accordance with Ind AS 34 - Interim Financial Reporting and have not been subject to review or audit by the statutory auditors.

The figures for the previous quarter ended 31 March 2025 and the corresponding previous

The management has prepared financial results for these periods by applying consisten accounting policies.

The above is an extract of the detailed format of unaudited three months and audited year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the company's official website www.ellenbarrie.com



By the order of the Board Padam Kumar Agarwala Chairman & Managing Director DIN: 00187727

RAJPUTANA INVESTMENT & FINANCE LIMITED

CIN: L50100KL1941PLC078267 Regd. Office: Building No: 1/110, BRD Complex, NH Bypass, Konikkara, Thrissur, Thrissur Kerala, 680306, India

Email Id: rajputanainvestment@gmail.com, Website: www.rajputanainvestment.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025 (Rs. In Lakhs

-			and the second second second	equity a	hare data
SI.	DADTICLU ADD		uarter Ended		Year Ended
No.	PARTICULARS	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
		Unaudited	Refer Note 6	Unaudited	Audited
A	Revenue from operations a) Income from Operations b) Other Operating Income	90.10	214.85	34.93	620.74
1	Total revenue from operations (A)	90.10	214.85	34.93	620.74
В	Other income	7.48	7.07	7.56	30.08
950	Total income (A+B)	97.58	221.92	42.50	650.82
C	Expenses	5000100001	000000000000000000000000000000000000000	0.00000000	0000000000
	(a) Purchases of Stock-in-trade (b) Changes in Inventories of Stock-in-Trade	104.71 (25.10)	210.27 (26.28)	65.60 (65.60)	494.05 (2.34)
- 8	(c) Employees Benefit Expenses	13.65	21.77	16.78	73.40
1	(d) Depreciation & Amortization Expenses	0.02	0.03	0.03	0.13
	(e) Listing Fees / Depository Fees	0.88	0.92	1.52	8.17
	(f) Other expenses	4.98	7.24	4.73	27.52
	Total expenses (C)	99.14	213.96	23.06	600.93
	Profit before tax (A+B-C)	(1.56)	7.96	19.44	49.89
	Exceptional items Tax expense:	38		33 1983	
$ \cap \rangle$	(i) Current tax	155	2.07	5.05	12.97
	(ii) Deferred tax Profit for the period (D+E) Other comprehensive income	(1.56)	5.89	14.38	0.00 36.92
**3	 A) (i) Items that will not be reclassified to profit or loss 	138		19	3
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	372	- 2	1.2	~
	Subtotal (A)	1 7	- 2		
-	B) (i) Items that will be reclassified to profit or loss	8.9		33	
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	(a)		8.0	
	Subtotal (B)	1.5		110	
	Total other comprehensive income (A + B) (H)				
1	Total comprehensive income for the period (H+G)	(1.56)	5.89	14.38	36.92
188	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10/- per share) Earnings per equity share (not annualised)	308.00	308.00	308.00	308.00
	Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	(0.05) (0.05)	0.19 0.19	0.47 0.47	1.20 1.20

Notes: These unaudited standalone financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The above Standalone financial results for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board o Directors at their meeting held on August 06, 2025. In compliance with the Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a limited review of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025 has been carried out by the statutory auditors, M/s Ayyar & Cherian Chartered Accountants and they have issued an unqualified review conclusion thereon.

The company operates mainly in the business of Sales, Sourcing and Exchange of finest pre owned luxury cars across the nation. Accordingly, there are no separate reportable segments as per IND AS 108 - Operating Segments

Information as required by Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015 as amended, is attached as Annexure 1

The Statement includes the results for the quarter ended March 31, 2025 being the balancing figure of the audited figures in respect of full financial year and published year to date figures up to the third quarter of the respective financial year, the results which where subjected to limited review

Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform with the current period presentation.

ANNEXURE 1

Disclosure in compliance with Regulation 52(4) of Securities and Exchange Board o India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as at and

S. No.	Particulars	Note	Quarter Ended 30 June-25
Α	Debt Equity Ratio	2	NA.
В	Debt Service Coverage Ratio		NA
C	Interest Service Coverage Ratio		NA
D	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value)		NA
E	Capital Redemption Reserve	9	NA.
F	Debenture Redemption Reserve		NA
G	Net Worth (Rs.in lakhs)	3	405.29
Н	Net Profit After Tax (Rs.in lakhs)		(1.56)
1	Earnings Per Share:		
i)	Basic (Rs)		(0.05)
ii)	Diluted (Rs)		(0.05)
J	Current Ratio	4	19.65
K	Long Term Debt To Working Capital		NA
L	Bad Debts To Account Receivable Ratio	1	NA
M	Current Liability Ratio		NA
N:	Total Debts To Total Assets		NIL
0	Debtors Turnover	9	NA
P	Inventory Turnover		NIL
Q	Operating Margin (%)	5	0.78
R	Net Profit Margin (%)	6	(0.02)
S	Sector Specific Equivalent Ratios:	5	NA:
1)	Stage 3 Loan Assets to Gross Loan Assets		NA
ii)	Net Stage 3 Loan Assets to Gross Loan Assets	2	NA.
iii)	Capital Adequacy Ratio	1	NA
iy)	Provision Coverage Ratio		NA:
v)	Liquidity Coverage Ratio(LCR)		NA

The figures/ratios which are not applicable to the Company are marked as "NA". Debt Equity Ratio = (Debt Securities + Borrowings(Other than debt securities) +

Subordinated Liabilities)/(Equity Share Capital + Other Equity) Networth is calculated as defined in sec 2(57) of the Companies Act, 2013.

 Current Ratio = Current Assets/Current Liabilities Operating Margin (%) = (Revenue - Operating Expenses) / Revenue 6. Net Profit Margin (%) = Net Profit After Tax / Total Income

Place : Thrissur

Date: 06 August 2025

For RAJPUTANA INVESTMENT & FINANCE LTD Sd/- Jijin C Surendran Managing Director

DIN: 03305487

"IMPORTANT" almondz

the game changer Whilst care is taken prior to Almondz Global Securities Limited acceptance of advertising Registered Office: Level 5, Grande Palladium, 175, CST Road, Off BKC. Kalina, Santacruz (East), Vidyanagari, Mumbai, Maharashtra 400098, India copy, it is not possible to verify Tel. +91 22 66437600, Fax: +91 22 66437700 its contents. The Indian Corporate Office: F-33/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in any

manner whatsoever.

Email: secretarial@almondz.com; Website: www.almondzglobal.com (SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES OF ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LIMITED)

Tel. +91 11 43500700, Fax: +91 11 43500735 CIN: L74899MH1994PLC434425

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders of Almondz Global Securities Limited (the 'Company') are hereby informed that a Special Window is opened for a period of Six months, from July 7 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer request of physical This facility is available for Transfer Deed(s) lodged prior to April 1, 2019 and which were

rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise. Shareholders of the Company who have missed the earlier deadline of March 31, 2021, are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited at BEETAL House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062, email: beetalrta@gmail.com or the Company at secretarial@almondz.com. By Order of the Board

For Almondz Global Securities Limited (Ajay Pratap) Director Legal - Corporate Affairs New Delhi & Company Secretary 06.08.2025 DIN: 10805775

OVOBEL FOODS LIMITED

CIN - L85110KA1993PLC013875 Registered Office: 319/1 - 329, Golden Point, 2nd Floor, Off Queens Road Cross, Behind Jain Hospital, Vasanth Nagar, Bengaluru 560001, Karnataka, India.

Tel: 080 -25594145/25594147, Fax 080-25594147, E Mail ID-info@ovobelfoods.com, Website: www.ovobelfoods.com Unaudited Financial Results for the 1st Quarter ended June 30th, 2025

(See Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations 2015

	U.S.	Year ended		
Particulars	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited
Total Income from Operations	6,067.91	4,786.59	4,759.02	18,858.69
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	368.88	802.59	374.17	1,238.62
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	368.88	802.59	374.17	1,238.62
Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	274.68	584.86	275.30	905.63
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	275.99	570.80	275.76	894.85
Equity Share Capital	950.08	950.08	950.08	950.08
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		7,607.70		7,607.70
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		16		
1. Basic	2.90	6.01	2.90	9.53
2. Diluted	2.90	6.01	2.90	9.53
	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic	Particulars Jun-audited	Particulars 30.06.2025 31.03.2025 Un-audited Audited	Total Income from Operations 6,067.91 4,786.59 4,759.02 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) 368.88 802.59 374.17 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 368.88 802.59 374.17 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 368.88 802.59 374.17 Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#) 274.68 584.86 275.30 Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 275.99 570.80 275.76 Equity Share Capital 950.08 950.08 950.08 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 2.90 6.01 2.90

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the companies website (www.ovobelfoods.com). b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.



For Ovobel Foods Limited Sd/- Prakriti Sarvouy Company Secretary

Schneider

Electric

SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L31900GJ2011PLC064420 Regd. Office: Milestone 87, Vadodara-Halol Highway, Village Kotambi,

Post Office Jarod, Vadodara 391 510, Gujarat, India Phone: 02668 664466 /664300, Fax: 02668 664621

Place : Bangalore

Date: 05.08.2025

Website: https://infra-in.se.com/; Email: company.secretary@schneider-electric.com

NOTICE TO THE MEMBERS – FIFTEENTH (15 $^{ m TH}$) ANNUAL GENERAL MEETING

Members are hereby informed that the Fifteenth (15th) Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Schneider Electric Infrastructure Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 4, 2025 at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") read with General Circular Nos. 09/2024 and 20/2020 dated September 19, 2024 and May 5, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (Collectively referred as "Relevant Circulars"), to transact the businesses set out in the Notice of 15th AGM dated May 26, 2025 ("Notice").

In accordance with the Relevant Circulars, the Notice along with the Annual Report for the financial year 2024-25 including the financial statements and other statutory reports ("Annual Report") will be sent in due course of time, only through email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants ("DPs") viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and/or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz. CB Management Services (P) Limited, as on Friday, August 1, 2025. For those Members whose email addresses are not registered, shall be sent a letter with weblink and exact path of the Company's website where the Annual Report and AGM Notice can be accessed. The Company shall send a physical copy of the Notice and Annual Report to those Members who request for the same at company.secretary@schneider-electric.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Company has engaged the services of NSDL to facilitate the participation of the Members in the AGM through VC/OAVM and to provide e-Voting facility (remote e-Voting and e-Voting at the AGM). Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The detailed instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-Voting before or at the AGM will be provided in the Notice.

Members whose email ids are not registered and who wish to receive the Notice and Annual Report and all other communications by the Company, from time to time, may get their email ids registered by submitting Form ISR-1 to RTA at ranu.deytalukdar@in.mpms.mufg.com or to the Company at company.secretary@schneider-electric.com. However, for shares held in demat form, Members are requested to write to their respective DPs. Those Members, who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Company and who wish to participate in the AGM or cast their vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the Meeting are requested to refer the Notice of AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password, for casting the vote through remote e-Voting.

Members of the Company holding shares in physical mode are hereby notified that SEBI has mandated that all the folios have to be KYC compliant and accordingly, asked the shareholders to furnish their

The Notice and the Annual Report will be made available on the website of the Company i.e. https://infra-in.se.com/ and also on the website of the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

quorum under Section 103 of the Act.

General Shareholders Information

Date: August 7, 2025

Place: Gurugram

a. Opening of Special Window for Re-lodgment of Transfer Requests of Physical Shares

window is opened by the Company for a period of six months i.e. from July 7, 2025 till January 6, 2026 to facilitate re-lodgment of transfer requests of physical shares which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/ returned/ not attended, due to deficiency in the documents/ process or otherwise by furnishing necessary documents to Company's RTA.

To align with the objectives of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority's broader drive for Investors education and facilitation, a 100 days' campaign has been initiated by the Company starting July 28, 2025 to November 6, 2025, requesting all its shareholders to update their KYC, Bank mandates and contact information including registration of email ids during this campaign window, for receiving prompt communications from the Company. This will enable the Company to make future payments of dividend to the rightful claimant directly, avoiding transfer of any unclaimed amount to IEPF Authority.

The Members are therefore requested to relodge transfer request and/or complete their KYC by writing to the Company's RTA at ranu.deytalukdar@in.mpms.mufg.com or at their office at Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company.

> By Order of the Board For Schneider Electric Infrastructure Limited

DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Registered Office: 409, Chaudhary Complex, 9 VS Block, Madhuban Road, Shakarpur, Delhi-110092

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(ALL AMOUNTS ARE IN ₹ LAKHS UNLESS OTHERWISE STATED)

20			Year ended		
S. No.	Particulars	(30/06/2025) Unaudited	(31/03/2025) Audited	(30/06/2024) Unaudited	(31/03/2025 Audited
	Revenue	+CONTROL (10)	ACCEPTANCE OF THE PARTY OF THE	T-COLORADO	
	Revenue from Operations	276.88	336.63	264.70	1,047.28
1	Other Income	2.48	5.63	2.11	14.98
III	Total Revenue (I+II)	279.36	342.26	266.81	1,062.26
٧	Expenses	PARTICINATION AND CONTRACTOR	5-70000000 5-70000000	5-00000	STREET STREET
Ī	Employee Benefits Expenses	253.27	214.69	243.17	885.45
1	Rent	7.28	6.76	6.63	26.72
	Travelling and Conveyance	1.96	0.73	0.21	4.26
1	Finance Costs				
	Depreciation and Amortization Expense	1.68	1.75	1.61	7.24
	Other Expenses	59.67	60.37	50.02	234.62
	Total Expenses (IV)	323.86	284.30	301.64	1,158.29
V	Profit/(Loss) Before Exceptional Items and Tax	(44.50)	57.96	(34.83)	(96.03)
VI	Exceptional Items				
VII	Profit/(Loss) Before Tax	(44.50)	57.96	(34.83)	(96.03)
VIII	Tax Expense	2210000000 0 **	5. 4	u mamaisi	1000000
X	Profit/(Loss) After Tax	(44.50)	57.96	(34.83)	(96.03)
X	Other Comprehensive Income-				
	(i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss		Fielding		899.00
	Re-measurement Gains/(Losses) on Defined Benefit Plans		8.51		8.51
KI.	Total Comprehensive Income for the Year (IX+X)	(44.50)	66.47	(34.83)	(87.51)
KII	Paid up equity share capital (Face Value Rs. 10/- Per Share)	3,222.74	3,222.74	3,222.74	3,222.74
XIII	Earnings per equity share	70/50/	(200.12	10.665-01	Voltable
	Basic (₹)	(0.14)	0.21	(0.11)	(0.27)
	Diluted (₹)	(0.14)	0.21	(0.11)	(0.27)
XIV	Earnings before depreciation and amortisation expenses, finance costs, exceptional items, tax expenses (EBITDA)	(42.82)	59.71	(33.22)	(88.79)

(Rupees in Lakhs)

An application was filed against M/s DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED under Section 9 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 before the Hon'ble NCLT Delhi with a prayer to commence the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). The said application for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) has been admitted by Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench, (Hon'ble NCLT/Hon'ble Adjudicating Authority) vide its order dated 18:08:2020. Under the IBC proceedings, the power of the Board were suspended with effect from 18.08.2020. The NCLT order also provided for a moratorium with effect from 18.08.2020 till the completion of the Corporate Insolvency Resolution process (CIRP) or until it approves the resolution plan under section 31(1) or passes an order for liquidation of the company under section 33, whichever is earlier. Currently, the CIRP process in respect of the company is in progress. In terms of Section 20 of Insolvency code, the management and operations of the Company are being managed by Interim Resolution Professional (IRP) Resolution Professional (RP)

All the executive directors of the Company, CFO and Company Secretary had resigned from the Company before the commencement of CIRP. In the absence of these concerned officials, who are primarily responsible for the book closure process and financial reporting, the Resolution Professional has got these financial statements prepared through present employees of the Company and hired consultants. These financial statements have been taken on record by the Resolution Professional while exercising the powers of the Board of Directors of the Company, which have been conferred upon him in terms of the provisions of Section 17 of the Code. Resolution Professional has taken on record these financial statements in good faith solely for the purpose of compliance and discharging his duty under the Code. As per regulation 33(3)(d) of the SEBI (LODR), 2015, if the listed entity has subsidiaries; it shall, while submitting annual audited standalone

financial results also submit annual audited consolidated financial results along with the audit report. It is to be noted that Resolution Professional in his powers shall have control over management of the corporate debtor only and not on its subsidiary, associate, or any other group companies. Hence only standalone audited financial results are submitted with the stock exchange As per Regulation 33(2)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results of a Company submitted to the Stock Exchange shall be signed by the Chairperson or Managing Director or Whole Time Director or in absence of all of them, it shall be signed by any of the Director of the Company who is fully authorised by the Board of Directors to sign the Financial Results. In view of the ongoing Corporate Insolvency Resolution Process commenced from 18th August 2020, powers of the Board of

by Hon'ble NCLT, New Delhi on 18:08:2020. Accordingly, the above Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June 2025. were taken on record and authorised for issue to concerned authorities by the Resolution Professional. A Resolution Plan received during the Corporate Insolvency Resolution Process has been approved by the Committee of Creditors and the

Directors have been suspended and these powers are now vested with the Resolution Professional of the Company vide the order passed

same has been submitted to the Hon'ble NCLT. The matter is still pending with Hon'ble NCLT for final approval As the Company is into Software Product and Services business, license fee revenue may vary from quarter to quarter.

The Company is primarily engaged in the business of Software Product and Services, which in the opinion of management is considered to be the only reportable business segment as per Ind AS 108 on 'Operating Segments' prescribed under Section 133 of the Companies Act,

The previous quarters' figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary to correspond with the current quarters' FOR DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Pardeep Kumar Lakhani Place: New Delhi Resolution Professional Date: 05.08.2025 Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966

Élin

एलिन

ELIN ELECTRONICS LIMITED Corporate & Registered Office: 4771, Bharat Ram Road, 23, Daryagani, New Delhi - 110 002, India Corporate Identity Number (CIN): L29304DL1982PLC428372

Tel.: 011-43000400 | E-mail: rkc@elinindia.com | Website: www.elinindia.com

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INFORMATION

The 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 30th August, 2025 at 10:30 A.M., (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with all the applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC / OAVM is well explained in Notes to the Notice of AGM, Members participating in the AGM through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Annual Report for the Financial Year 2024-25 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the AGM has been sent to the Members of the Company on 6th August, 2025 and other persons so entitled, whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent : KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 or Depository Participants (DP), on 1st August, 2025. The aforesaid document(s) are also available and can be downloaded from the website of Company, at website of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Additionally, in accordance with Regulation 36 (1)(b) of Listing Regulations, the company is also sending a letter to shareholders whose e-mail IDs are not registered with Company/ RTA/DP, providing weblink, the exact path of company's website from where Annual Report for F.Y.2024-25 can be accessed.

E-Voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on Saturday, 23rd August 2025 (Cut-off Date), the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the items to be considered/ resolutions proposed to be passed at the AGM, through e-Voting services provided by CDSL:

- (A) Remote e-Voting: The remote e-Voting period commences on Wednesday, 27th August 2025 (9.00 A.M.) and ends on Friday, 29th August 2025 (5.00 P.M.) The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- (B) E-voting at the AGM: The facility for e-Voting shall also be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote e-Voting and are attending the AGM through VC or OAVM.

Owners maintained by the Depositories, as on the Cut-off Date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the AGM. The manner of remote e-Voting/ e-Voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode/ physical mode & registering E-mail address of Members who have not registered their

E-mail addresses and information, instructions and procedure relating to Login ID and Password

for e-Voting, are provided in the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL at

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial

www.evotingindia.com. Mr. Pramod Prasad Agarwal from M/s. P.P. Agarwal & Co., Company Secretaries (CP No. 10566) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting during the meeting

The Members who have already cast their vote by remote e-Voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OAVM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-Voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through e-Voting.

Manner of registering/updating E-mail addresses and Bank Account details:

Shares held in Physical Mode: Please register/update the PAN and KYC details (including E-mail address and Bank Account's particulars) with the Company's RTA, KFin Technologies Limited (Unit: Elin Electronics Limited), Email: einward.ris@kfintech.com in prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms. Members may access the relevant Forms available on the

Shares held in Demat Mode: Please contact your DP and register/update your PAN, Email address,

After due verification and if requested, the Company/ RTA will forward the procedure for obtaining

their login credentials to their registered email address. Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor,

> For and on behalf of Elin Electronics Limited

Date: 6th August, 2025 Place: New Delhi

PAN, contact details and nomination to the RTA.

Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the

Pursuant to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special

b. 100 Days Campaign - "Saksham Niveshak"

Sumit Goel Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: F6661 epaper.financialexpress.com

New Delhi

the Company at its Secretarial Office for any assistance.

in a fair and transparent manner.

website of the Company at https://www.elinindia.com/investors/#Various_Forms.

Bank Account's details, etc. in your demat account, as per the process advised by your DP.

Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800225533. You may also write to

> Lata Rani Pawa Company Secretary and Compliance Officer M.No: A30540